



COM 107

B.Com. Ist SEMESTER EXAMINATION, 2022-23

B.Com

(Elements of Banking & Insurance)

(2+0)

(CBCS MODE)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Date (तिथि) : _____

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

8416

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures)

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1 Hour

समय : 1 घण्टा

Max. Marks : 60

अधिकतम अंक : 60

नोट : पुस्तिका में 40 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

- | | |
|---|--|
| <p>1. General relationship between banker and customer is :</p> <p>(A) Contractual relationship</p> <p>(B) Trustee and beneficiary</p> <p>(C) Right of agent</p> <p>(D) None of these</p> | <p>1. बैंकर और ग्राहक के बीच सामान्य सम्बन्ध है :</p> <p>(A) संविदात्मक सम्बन्ध</p> <p>(B) ट्रस्टी और लाभार्थी</p> <p>(C) एजेंट का अधिकार</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>2. Present RBI governor is :</p> <p>(A) Vimal Jalan</p> <p>(B) Shaktikant Das</p> <p>(C) Urjit Patel</p> <p>(D) Pradeep Kumar</p> | <p>2. वर्तमान आर० बी० आई० गवर्नर हैं :</p> <p>(A) विमल जालान</p> <p>(B) शक्तिकान्त दास</p> <p>(C) उर्जित पटेल</p> <p>(D) प्रदीप कुमार</p> |
| <p>3. How many bank were nationalised in 1969 ?</p> <p>(A) 14</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 25</p> <p>(D) 30</p> | <p>3. 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ?</p> <p>(A) 14</p> <p>(B) 20</p> <p>(C) 25</p> <p>(D) 30</p> |
| <p>4. Who determines bank rate ?</p> <p>(A) Central Government</p> <p>(B) Reserve Bank</p> <p>(C) SEBI</p> <p>(D) None of these</p> | <p>4. बैंक दर कौन निर्धारित करता है ?</p> <p>(A) केन्द्रीय सरकार</p> <p>(B) रिजर्व बैंक</p> <p>(C) सेबी</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

5. Who issues ₹ 1 currency notes ?

- (A) Reserve Bank
- (B) Central Government
- (C) State Bank of India
- (D) None of these

6. Measures of supply of money in India is :

- (A) M_1
- (B) M_1, M_2
- (C) M_1, M_2, M_3
- (D) M_1, M_2, M_3, M_4

7. NPA means :

- (A) Net Performing Assest
- (B) Non-Performing Asset
- (C) Net Profit Acceptance
- (D) None of these

8. KCC is :

- (A) Kissan Credit Card
- (B) Kissan Customers Card
- (C) Key Credit Card
- (D) None of these

5. ₹ 1 करेन्सी नोट कौन जारी करता है ?

- (A) रिजर्व बैंक
- (B) केन्द्रीय सरकार
- (C) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- (D) इनमें से कोई नहीं

6. भारत में धन की आपूर्ति के उपाय हैं :

- (A) M_1
- (B) M_1, M_2
- (C) M_1, M_2, M_3
- (D) M_1, M_2, M_3, M_4

7. एन० पी० ए० का मतलब :

- (A) नेट परफॉर्मिंग एसेस्ट
- (B) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट
- (C) नेट प्रॉफिट एक्सेप्टेन्स
- (D) इनमें से कोई नहीं

8. के० सी० सी० है :

- (A) किसान क्रेडिट कार्ड
- (B) किसान ग्राहक कार्ड
- (C) कुंजी क्रेडिट कार्ड
- (D) इनमें से कोई नहीं

9. Plastic money is :

- (A) Debit Card
- (B) Credit Card
- (C) ATM Card
- (D) All of the above (A), (B) and (C)

10. KYC is :

- (A) Know your credit
- (B) Know your customer
- (C) Know your cash
- (D) All

11. Debit Card means :

- (A) Pay later
- (B) Pay now
- (C) Both of these
- (D) None of these

12. Which bank is known as banker's bank ?

- (A) RBI
- (B) SBI
- (C) PNB
- (D) NABARD

9. प्लास्टिक मनी है :

- (A) डेबिट कार्ड
- (B) क्रेडिट कार्ड
- (C) ए० टी० एम० कार्ड
- (D) उपर्युक्त में से सभी (A), (B) और (C)

10. के० वाई० सी० है :

- (A) अपने क्रेडिट को जाने
- (B) अपने ग्राहक को जाने
- (C) अपने कैश को जाने
- (D) सभी

11. डेबिट कार्ड का अर्थ है :

- (A) बाद में भुगतान करें
- (B) अभी भुगतान करें
- (C) इनमें से दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

12. किस बैंक को बैंकरो का बैंक कहा जाता है?

- (A) आर० बी० आई०
- (B) एस० बी० आई०
- (C) पी० एन० बी०
- (D) नाबार्ड

13. Which deposits are repayable after the expiry of the fixed period ?

- (A) Demand deposit
- (B) Time deposit
- (C) Saving deposit
- (D) Recurring deposit

14. CRR refers to :

- (A) Cash Reserve Ratio
- (B) Credit Reserve Ratio
- (C) Common Reserve Ratio
- (D) None of these

15. EFT stands for :

- (A) Electronic Fund Transfer
- (B) Electronic Fund Transmission
- (C) Electronic Feature Transfer
- (D) None of these

16. Which bank was introduced first ATM machine in India ?

- (A) RBI
- (B) HSBC
- (C) PNB
- (D) ICICI bank

13. कौन सी जमा राशि निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद चुकाने योग्य है ?

- (A) माँग पर जमा
- (B) अवधि जमा
- (C) बचत जमा
- (D) आवर्ती जमा

14. सी० आर० आर० संदर्भित करता है :

- (A) कैश रिजर्व रेसियो
- (B) क्रेडिट रिजर्व रेसियो
- (C) कॉमन रिजर्व रेसियो
- (D) इनमें से कोई नहीं

15. ई० एफ० टी० का मतलब है :

- (A) इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर
- (B) इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्समिशन
- (C) इलेक्ट्रॉनिक फीचर ट्रान्सफर
- (D) इनमें से कोई नहीं

16. भारत में पहली ए० टी० एम० मशीन किस बैंक द्वारा शुरुआत की गयी थी ?

- (A) आर० बी० आई०
- (B) एच० एस० बी० सी०
- (C) पी० एन० बी०
- (D) आई० सी० आई० सी० आई० बैंक

- | | |
|---|--|
| <p>17. Full form of RTGS :</p> <p>(A) Real Time Gross Settlement</p> <p>(B) Right Time Gross Settlement</p> <p>(C) Real Tax Gross Settlement</p> <p>(D) None of these</p> | <p>17. आर० टी० जी० एस० का पूर्णरूप है :</p> <p>(A) रियल टाइम ग्राँस सेटलमेन्ट</p> <p>(B) राइट टाइम ग्राँस सेटलमेन्ट</p> <p>(C) रियल टैक्स ग्राँस सेटलमेन्ट</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>18. If a cheque is torn in to two or more pieces and presented for payment it is called :</p> <p>(A) Mutilated cheque</p> <p>(B) Stale cheque</p> <p>(C) Local cheque</p> <p>(D) Self cheque</p> | <p>18. यदि कोई चेक दो या दो से अधिक टुकड़ों में फाड़ा जाता है और भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं :</p> <p>(A) कटे-फटे चेक</p> <p>(B) पुराना चेक</p> <p>(C) स्थानीय चेक</p> <p>(D) सेल्फ चेक</p> |
| <p>19. Head office of RBI is :</p> <p>(A) Mumbai</p> <p>(B) Kolkata</p> <p>(C) New Delhi</p> <p>(D) Chennai</p> | <p>19. आर० बी० आई० का मुख्यालय है :</p> <p>(A) मुम्बई</p> <p>(B) कोलकाता</p> <p>(C) नई दिल्ली</p> <p>(D) चेन्नई</p> |
| <p>20. IFSC stands for :</p> <p>(A) Indian Financial System Code</p> <p>(B) International Financial System Code</p> <p>(C) Indian Fund Service Code</p> <p>(D) None of these</p> | <p>20. आई० एफ० एस० सी० का मतलब है :</p> <p>(A) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड</p> <p>(B) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली कोड</p> <p>(C) भारतीय निधि सेवा कोड</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>21. Banking Regulation Act came in to existence in :</p> <p>(A) 1949</p> <p>(B) 1934</p> <p>(C) 1956</p> <p>(D) 1948</p> | <p>21. बैंकिंग विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया था :</p> <p>(A) 1949</p> <p>(B) 1934</p> <p>(C) 1956</p> <p>(D) 1948</p> |
| <p>22. The central office of LIC of India is located at :</p> <p>(A) Mumbai</p> <p>(B) New Delhi</p> <p>(C) Bangalore</p> <p>(D) Chennai</p> | <p>22. एल० आई० सी० का केन्द्रीय कार्यालय स्थित है :</p> <p>(A) मुम्बई</p> <p>(B) नई दिल्ली</p> <p>(C) बेंगलोर</p> <p>(D) चेन्नई</p> |
| <p>23. Which of the following is a children policy of LIC ?</p> <p>(A) Jeevan Sneha</p> <p>(B) Jeevan Vishwas</p> <p>(C) Jeevan Dhara</p> <p>(D) Jeevan Sukanya</p> | <p>23. निम्नलिखित में से कौन सी एल० आई० सी० बच्चों से सम्बन्धित योजना है ?</p> <p>(A) जीवन स्नेह</p> <p>(B) जीवन विश्वास</p> <p>(C) जीवन धारा</p> <p>(D) जीवन सुकन्या</p> |
| <p>24. Who bears the investment risk in case of ULIPs ?</p> <p>(A) Insurer</p> <p>(B) Insured</p> <p>(C) State</p> <p>(D) IRDA</p> | <p>24. यूलिप के मामले में निवेश जोखिम कौन वहन करता है ?</p> <p>(A) बीमा कंपनी</p> <p>(B) बीमा</p> <p>(C) राज्य</p> <p>(D) ईरडा</p> |

25. Group insurance policy is also termed as :
- (A) Master policy
(B) Cover policy
(C) Burglary policy
(D) Fidelity policy
26. Deposit Insurance Corporation was established in :
- (A) 1962
(B) 1982
(C) 1979
(D) 1976
27. Which of the following is the first life insurance company in India ?
- (A) United India Insurance
(B) Oriental Insurance
(C) LIC
(D) New India Assurance
28. When was life insurance sector nationalized ?
- (A) 1952
(B) 1956
(C) 1986
(D) 1984
25. समूह बीमा पॉलिसी को कहा जाता है :
- (A) मुख्य नीति
(B) कवर नीति
(C) सेंध नीति
(D) निष्ठा नीति
26. निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गयी थी:
- (A) 1962
(B) 1982
(C) 1979
(D) 1976
27. निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली जीवन बीमा कम्पनी है ?
- (A) यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेन्स
(B) ओरियन्टल इश्योरेन्स
(C) एल० आई० सी०
(D) न्यू इण्डिया एसूरेन्स
28. जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
- (A) 1952
(B) 1956
(C) 1986
(D) 1984

29. CBS stands for :

- (A) Code Banking Solutions
- (B) Core Banking Solutions
- (C) Common Banking Solutions
- (D) Credit Banking Solutions

30. CTS refers to :

- (A) Cheque Truncation System
- (B) Cheque Transaction System
- (C) Cheque Truncation Solution
- (D) Cheque Transaction Solution

31. RBI Act came into existence :

- (A) 1934
- (B) 1935
- (C) 1956
- (D) 1945

29. सी० बी० एस० का मतलब है :

- (A) कोड बैंकिंग सोल्यूशन
- (B) कोर बैंकिंग सोल्यूशन
- (C) कॉमन बैंकिंग सोल्यूशन
- (D) क्रेडिट बैंकिंग सोल्यूशन

30. सी० टी० एस० संदर्भित करता है :

- (A) चेक ट्रंकेशन सिस्टम
- (B) चेक ट्रान्जेक्शन सिस्टम
- (C) चेक ट्रंकेशन सोल्यूशन
- (D) चेक ट्रॉन्जेक्शन सोल्यूशन

31. आर० बी० आई० अधिनियम अस्तित्व में आया था :

- (A) 1934
- (B) 1935
- (C) 1956
- (D) 1945

32. IRDA stands for :

- (A) Insurance Regulatory and Development Authority
- (B) Industrial Development and Development Authority
- (C) Insurance Restructuring and Development Authority
- (D) Insurance Refinancing and Development Authority

33. Principle of insurable interest means :

- (A) Utmost good faith
- (B) Subrogation
- (C) Monetary interest
- (D) Indemnity

34. Unit banking is also called ?

- (A) Branch banking
- (B) Specialized banking
- (C) Localized banking
- (D) None of these

32. ईरडा संदर्भित करता है :

- (A) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
- (B) औद्योगिक विकास और विकास प्राधिकरण
- (C) बीमा पुनर्गठन और विकास प्राधिकरण
- (D) बीमा पुनर्वित्त और विकास प्राधिकरण

33. बीमा योग्य हित के सिद्धांत का अर्थ है :

- (A) अच्छी भावना
- (B) प्रस्थापन
- (C) मौद्रिक ब्याज
- (D) हानि से सुरक्षा

34. यूनिट बैंकिंग को कहा जाता है :

- (A) शाखा बैंकिंग
- (B) विशेष बैंकिंग
- (C) स्थानीय बैंकिंग
- (D) इनमें से कोई नहीं

35. Surrender of policy is not applicable in :
- (A) Life Insurance
(B) General Insurance
(C) Miscellaneous Insurance
(D) All
36. SIDBI is a ?
- (A) Commercial Bank
(B) Development Bank
(C) Foreign Bank
(D) Private Bank
37. Which account is opened by business persons ?
- (A) Current Account
(B) Saving Bank Account
(C) Home Safe Account
(D) All of the above
38. Bank plays role is :
- (A) Capital Formation
(B) Capital Movement
(C) Meaning Foreign Currency
(D) All of these
35. पॉलिसी का सरेंडर में लागू नहीं है :
- (A) जीवन बीमा
(B) सामान्य बीमा
(C) विविध बीमा
(D) सभी
36. सिडबी एक है ?
- (A) वाणिज्यिक बैंक
(B) विकास बैंक
(C) विदेशी बैंक
(D) निजी बैंक
37. कौन सा खाता व्यवसायी व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है ?
- (A) चालू खाता
(B) बचत बैंक खाता
(C) गृह सुरक्षित खाता
(D) उपर्युक्त सभी
38. बैंक की भूमिका हैं :
- (A) पूँजी निर्माण
(B) पूँजी आंदोलन
(C) मतलब विदेशी मुद्रा
(D) इनमें से सभी

39. How many digits are there in PIN ?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

40. NEFT refers to_____.

(A) National Economic Fund Transfer

(B) National Economic Free Transfer

(C) National Electronic Fund Transfer

(D) None of these

39. पिन में कितने अंक होते हैं ?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

40. एन.ई.एफ.टी. का तात्पर्य _____ से है।

(A) नेशनल इकोनामिक फण्ड ट्रान्सफर

(B) नेशनल इकोनामिक फ्री ट्रान्सफर

(C) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर

(D) इनमें से कोई नहीं
